PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF ROHIT FERRO-TECH LIMITED

CIN: L27104WB2000PLC091629 Corporate office- 132A, S.P. Mukherjee Road, Kolkata- 700026, West Bengal, India. Email ID: cs@rohitferrotech.com Website: www.rohitferrotech.com

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the Hon'ble National Company Law Tribunal, Kolkata Bench vide order dated 7th April, 2022 has approved the Resolution Plan ("Approved Resolution Plan") submitted by Tata Steel Mining Limited ("Resolution Applicant") for acquisition of Rohit Ferro-Tech Limited ("Corporate Debtor") in compliance with Section 31 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, as amended from time to time. The Approved Resolution Plan provides that with effect from the Effective Date, as will be identified by the Resolution Applicant in terms of the Approved Resolution Plan, all the equity shares of the Corporate Debtor i.e., Rohit Ferro-Tech Limited shall stand delisted from BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited without any further act and deed ("Delisting").

The Resolution Applicant estimates that, the liquidation value of the Corporate Debtor is insufficient to cover the amounts owed to the Secured Financial Creditors of the Corporate Debtor in full and the Liquidation Value owed to the shareholders of the Corporate Debtor is NIL Hence, no amount is payable to the shareholders of the Corporate Debtor pursuant to the Delisting and no delisting offer shall be made to the shareholders of the Corporate Debtor. For M/s Rohit Ferro-Tech Limited.

Date: 7th April, 2022 Anil Prasad Shaw Place: Kolkata Company Secretary

Union Asset Management Company Private Limited

Corporate Identity Number (CIN): U65923MH2009PTC198201

Registered Office: Unit 503, 5th Floor, Leela Business Park,

Investment Manager for Union Mutual Fund

Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400059

LOST OF SHARE

Notice is hereby given that the Certificate(s) for the under mentioned Equity Shares of the EPL LTD (ESSEL PROPACK LTD) Regd. Office : P.O. Vasind, Taluka Shahapur, Thane, Maharashtra, 421604, have been lost/misplaced and the holder(s)/ purchaser(s) of the said Equity Shares have applied to the Company to issue duplicate Share Certificate(s).

Any person who has a claim in respect of the said Shares should lodge the same with the Company at its Registered Office within 21 days from this date else the Company will proceed to issue duplicate certificate(s) to the aforesaid applicants without any

Folio		No. of Share			Certificate Nos.	
No.	Shareholder		From	То	From	To
V00712	VIJAY KUMAR INANI	200	157576623	3-157576822	914	10

VIJAY KUMAR INANI [Name of Shareholder(s)]

EPL LTD (ESSEL PROPACK LTD) Regd. Office: P.O. Vasind, Taluka Shahapur, Thane, Maharashtra, 421604

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD. (A Govt. of India Undertaking

Mini Ratna Company) CIN No.U74899DL1963GOI003913 RO: Block-AQ, Plot -12, Sector-5, Salt Lake, Kolkata-700 091 Ph. 033-2367-1077 / 74,

E-mail: nsc.kolkata.ro@gmail.com No:- Prodn.-02/NSC: KOL/2022-23/ Dated: 07-04-2022 NOTICE E - Tender for supply of fresh finished product of CS category of Arhar LRG - 52 (2000 Qtls.) & PRG - 176 (2000 Qtls.)

For details, please visit NSC's website www.indiaseeds.com under Public Notice (Tender Quotations). Online Bids for above tender must be submitted at NSC e-Portal: https://indiaseeds.eproc.in latest by 14:30 Hrs. of 28-04-2022. Corrigendum / addendum, if any shall only be published in NSC's Regional Manager NSC, Kolkata



Fax No: 022-67483401;
 Website: www.unionmf.com;
 Email: investorcare@unionmf.com

Toll Free No. 1800 2002 268/1800 5722 268;
 Non Toll Free, 022-67483333;

NOTICE TO ALL INVESTORS / UNITHOLDERS

NOTICE is hereby given to the Investors / Unit Holders of all the Scheme(s) of Union Mutual Fund that, in accordance with the provisions of Regulation 59(A) of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with SEBI Circular No. SEBI/HO/IMD/DF2/CIR/P/2018/92 dated June 05, 2018 as amended from time to time, Union Asset Management Company Private Limited ("the AMC") has hosted a soft copy of the Half Yearly Portfolio Statements of all the Schemes of Union Mutual Fund for the period ended March 31, 2022 on its website viz www.unionmf.com and on AMFI's website viz www.amfiindia.com. The Investors/Unitholders can view and download the Half Yearly Portfolio Statements from the website of the AMC and AMFI.

Unit holders may also request for a physical or electronic copy of the Half Yearly Portfolio Statements by writing to the AMC at the email address investorcare@unionmf.com or calling the AMC on the toll free number 18002002268 / 18005722268 or submitting a written request at any of the official points of acceptance of Union Mutual Fund.

> For Union Asset Management Company Private Limited (Investment Manager for Union Mutual Fund)

Place: Mumbai

Union Mutual Fund

Authorised Signatory

Date: April 07, 2022 MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

Statutory Details: Constitution: Union Mutual Fund has been set up as a Trust under the Indian Trusts Act, 1882; Sponsors: Union Bank of India and Dai-ichi Life Holdings, Inc.; Trustee: Union Trustee Company Private Limited [Corporate Identity Number (CIN): U65923MH2009PTC198198], a company incorporated under the Companies Act, 1956 with a limited liability; Investment Manager: Union Asset Management Company Private Limited [Corporate Identity Number (CIN): U65923MH2009PTC198201], a company incorporated under the Companies Act, 1956 with a limited liability.

Copy of all Scheme Related Documents can be obtained from any of our AMC offices/ Customer Service Centers/ distributors as well as from our website www.unionmf.com.

S. M. MANAGEMENT PRIVATE LIMITED Registered Office: Makum Road, Tinsukia, Assam-786125 Phone No. (0374) 2352353. FAX: (0374) 2352233, CIN: U74140AS2005PTC007642 Email: secretarial@greenpanel.com

PUBLIC NOTICE

Pursuant to RBI Circular No. DNBR (PD) CC No. 065/03.10.001/2015-16 dated July 9 2015, notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 230 to 232 of Companies Act 2013, an application has been filed with National Company Law Tribunal, Guwahati Bench and Kolkata Bench on November 29, 2021, in the matter of scheme of amalgamation between M/s. S M. Management Pvt. Ltd., a Company incorporated under Companies Act 1956 and registered with Reserve Bank of India vide Certificate of Registration No. 0800174 as a non-deposit taking Non-Banking Finance Company and Vanashree Properties Private Limited, Mastermind Shoppers Private Limited, Brijbhumi Merchants Private Limited, Brijbhumi Tradevin Private Limited with Prime Holdings Private Limited, a Company incorporated under Companies Act 1956 and registered with Reserve Bank of India vide Certificate of Registration No. 08.00040 as a non-deposit taking Non-Banking Finance Company.

This public notice is being issued jointly by the Company and the above-mentioned parties.

S.M. Management Private Limited Vanashree Properties Private Limited Mastermind Shoppers Private Limite Brijbhumi Merchants Private Limited BrijbhumiTradevin Private Limited (Transferor Companies) Prime Holdings Private Limited

Date: April 7, 2022 (Transferee Company) Place: Kolkata

L&T Mutual Fund

Name / Designation

6th Floor, Brindavan, Plot No. 177 C. S. T. Road, Kalina Santacruz (East), Mumbai 400 098

call 1800 2000 400 **email** investor.line@Intmf.co.in website www.ltfs.com



Notice-cum-Addendum (No. 02 of F.Y. 2022 - 2023)

Age / Qualification

Designation of officials of L&T Investment Management Limited as Key Personnel:

Investors are requested to note that in reference to SEBI circular no. SEBI/HO/IMD/DF2/CIR/P/ 2021/024 dated March 04, 2021, the following officials of the L&T Investment Management Limited ("LTIM") have been appointed and designated as "Key Personnel" of LTIM, with effect from April 01, 2022.

Pursuant to the above, the following details shall be included under "Information on Key Personnel" in the Statement of Additional Information (SAI) of L&T Mutual Fund:

Brief Experience

3		
Mr. Vinay Chhawchharia Chief Risk Officer-(CRO)	Age: 36 years Qualification: B. Tech and CFA Level 2	 Mr. Vinay Chhawchharia has 15 years of experience in the financial services industry in the field of research and risk management. Mr. Chhawchharia is primarily responsible for review of risk management framework for LTIM with effect from April 01, 2022. He has been associated with L&T Financial Services Group since May 2018. His primary responsibilities also includes implementation of processes, tools and systems to identify, prioritize, assess, mitigate and report risks. Prior to joining L&T Financial Services, his previous assignments held during last 10 years were as below: CVK Advisors (July 2016 – April 2018) – Helped borrowers in raising Debt. Engaged with clients at an early stage of ideation and partne with them all the way to execute the right growth and capitalization strategies SMERA Limited (June 2013 - July 2016) - Rating Head (West region and member of Rating Committee, CRISIL Limited (July 2007 - May 2013) - Sector Specialist. Responsible for Industry & Company Analysis.
Ms. Neha Bhatia Head - Human Resources	Age: 34 years Qualification: PGDM HR	 Ms. Neha Bhatia has 10 years of experience in Telecom, Automobile an Financial Services pertaining to Human Resources. She has been associated with L&T Financial Services Group sinc November 2021. Ms. Bhatia is responsible for Recruitment, Engagement and Performance Management of LTIM employees with effect from April 01, 2022. Prior to joining LTIM, her previous assignments held during last 10 year were as below: Edelweiss General Insurance (September 2017 till November 2021) responsible for Recruitment, Engagement, Performance Management, Learning & Development and Rewards & Recognition of employees. BMW India (September 2014 to September 2017) - responsible for Talent Management. Reliance Communication (July 2012 to August 2014) - worked as H Generalist.

This Notice-cum-Addendum forms an integral part of the SAI of L&T Mutual Fund as applicable. All other terms and conditions of the SAI will remain unchanged.

Investors are requested to take note of the above.

For L&T Investment Management Limited CIN: U65991MH1996PLC229572

(Investment Manager to L&T Mutual Fund)

Sd/-**Authorised Signatory**

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

This is a public announcement for information purpose only and is not a Prospectus Announcement. Not for publication and distribution, directly or indirectly outside India.

PUBLIC ANNOUNCEMENT



SABOO SODIUM CHLORO LIMITED

Our Company was originally incorporated under the provisions of Companies Act, 1956 in Jaipur as "Saboo Sodium Chloro Limited" on 22nd November, 1993 vide Certificate of Incorporation bearing Registration Number 17-07830 of 1993-94 and certificate of commencement of business dated 22nd November, 1993 issued by the Registrar of Companies, Jaipur, Rajasthan. Registered & Corporate office: L5-B II Krishna Marg, C- Scheme Jaipur, Rajasthan - 302001

Contact Person: Mrs. Megha Sharma, Company Secretary & Compliance Officer; Tel No; +91 141 2372946 / 2379483 E-Mail ID: salt@suryasalt.com; Website: www.suryasalt.com; CIN: L24117RJ1993PLC007830

OUR PROMOTERS: MR. GIRDHAR GOPAL SABOO AND MRS. ARCHANA SABOO

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY THE ISSUE

RIGHTS ISSUE OF [...] PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- (RUPEES TEN ONLY) ('EQUITY SHARES') EACH AT A PRICE OF ₹ [•]/- (RUPEES [•] ONLY) PER RIGHT SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ [•]/- (RUPEES [•] ONLY) PER RIGHT SHARE) ('ISSUE PRICE') ('RIGHT SHARES') FOR AN AMOUNT UP TO ₹ 18.00 CRORES* (RUPEES EIGHTEEN CRORES ONLY) ON A RIGHTS ISSUE BASIS TO THE ELIGIBLE SHAREHOLDERS OF SABOO SODIUM CHLORO. LIMITED ('COMPANY' OR 'ISSUER') IN THE RATIO OF [●] ([●]) RIGHT SHARES FOR EVERY [●] ([●]) EQUITY SHARES HELD BY SUCH ELIGIBLE SHAREHOLDERS AS ON THE RECORD DATE [●], ('ISSUE'). THE ISSUE PRICE IS [●] ([●]) TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE, FOR FURTHER DETAILS, KINDLY REFER TO THE SECTION TITLED 'TERMS OF THE ISSUE' BEGINNING ON PAGE 107 OF THE DRAFT LETTER OF OFFER.

*Assuming full subscription and receipt of all Call Monies with respect to Right Shares

This Public Announcement is made in compliance with the provisions of Regulation 72 (2) of the Securities and Exchange Board of India(Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (the "SEBI ICDR Regulations"), to inform the public that the Company is proposing subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, an issue of Equity Shares to its equity shareholders on rights basis and has on April 06, 2022 filed a Draft Letter of Offer ("DLOF") with the Designated Stock Exchange BSE Ltd. Since the size of the Rights issue is less than Rupees Fifty (₹ 50.00) crores, the DLOF has not been filed with Securities and Exchange Board of India ("SEBI") nor SEBI shall issue any observation on the DLOF. The DLOF is available in the website of Stock Exchanges, i.e BSE Limited ("BSE") at www.bseindia.com and website of the Company at www.suryasalt.com.

Investment in equity and equity related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this offer unless they can afford to take the risk with such investment. Investors are advised to read the Risk Factors carefully before taking an investment decision in this offering. For taking an investment decision, investors shall rely on their own examination of the issuer and the offer including the risks involved. The Right Equity Shares being offered in this issue have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of this document.

Investors should read the offer document carefully, including the Risk factors on page 18 of the offer document before making any investment decision

BEETAL FINANCIAL & COMPUTER SERVICES (P) LIMITED

'BEETAL HOUSE', 3rd Floor, 99, Madangir, Behind Local Shopping Centre, New Delhi-110062 Tel No: 011-29961281-83, 011-26051061, 26051064; Fax No: 011-29961284; Email: beetal@beetalfinancial.com Contact Person: Mr. Punit Mittal, General Manager; Website: www.beetalfinancial.com SEBI Registration Number: INR000000262; CIN No: U67120DL1993PTC052486

All capitalised terms used and not specifically defined herein shall have the same meaning ascribed to them in the DLOF. For SABOO SODIUM CHLORO LIMITED

On behalf of the Board of Directors

Date : April 7, 2022 Place: Rajasthan

Mrs. Megha Sharma Company Secretary & Compliance Officer

This Public announcement has been prepared for publication in India and may not be released in any other jurisdiction. Please note that the distribution of the DLOF and the Issue of equity shares on a rights basis to persons in certain jurisdictions outside India may be restricted by legal requirements prevailing in those jurisdictions. Accordingly, any person who acquires Rights Entitlements or Rights Equity Shares will be deemed to have declared, warranted, and agreed that at the time of subscribing to the Rights Equity Shares or the Rights Entitlements, such person is not and will not be in the United States and/or in other restricted jurisdictions. The Rights Equity Shares of the Company have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended ("Securities Act"), or in any other jurisdiction which have any restrictions in connection with offering, issuing and allotting Rights Equity Shares within its jurisdiction and/or to its citizens. The offering to which the DLOF relates is not and under no circumstances is to be construed as, an offering of any Rights Equity Shares or Rights Entitlements for sale in the United States or any other jurisdiction other than India or as a solicitation therein of an offer to buy any of the said Rights Equity Shares or Rights

For All Advertisement Booking Call: 0120-6651214

AICICI PRUDENTIAL*** MUTUAL FUND

_TTARAKKI KAREIN!

84 - 1288 Days Plan E (the Scheme)

ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Corporate Identity Number: U99999DL1993PLC054135

Registered Office: 12th Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001. Corporate Office: One BKC, 13th Floor, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400 051. Tel.: +91 22 2652 5000, Fax: +91 22 2652 8100, Website: www.iciciprumf.com, Email id: enquiry@icicipruamc.com

Central Service Office: 2nd Floor, Block B-2, Nirlon Knowledge Park, Western Express Highway, Goregaon (E), Mumbai - 400 063. Tel.: 022 2685 2000 Fax: 022 26868313

Notice to the Investors/Unit holders of ICICI Prudential Fixed Maturity Plan – Series

Notice is hereby given that ICICI Prudential Trust Limited, Trustee to ICICI Prudential Mutual Fund has approved the following distribution under Income Distribution cum capital withdrawal option (IDCW option) of the Scheme, subject to availability of distributable surplus on the record date i.e. on April 13, 2022*:

Name of the Scheme/Plans	Quantum of IDCW (₹ per unit) (Face value of ₹ 10/- each) ^{\$#}	NAV as on April 6, 2022 (₹ Per unit)
ICICI Prudential Fixed Maturity P	lan – Series 84 – 1288 Days Pla	n E
Quarterly IDCW	0.0500	13.1375
Half Yearly IDCW	0.0500	13.1377

- \$ The distribution will be subject to the availability of distributable surplus and may be lower depending upon the extent of distributable surplus available on the record date under the IDCW option of the Schemes.
- # Subject to deduction of applicable statutory levy, if any
- or the immediately following Business Day, if that day is a Non Business Day.

The distribution with respect to IDCW will be done to all the unit holders/beneficial owners whose names appear in the register of unit holders/Statement of beneficial owners maintained by the Depositories, as applicable under the IDCW option of the Scheme, at the close of business hours on the record date.

It should be noted that pursuant to payment of IDCW, the NAV of the IDCW option of the Scheme would fall to the extent of payout and statutory levy (if applicable).

Suspension of trading of units of ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 84 -1288 Days Plan E (FMP - Sr 84 - 1288 Pl E):

The units of FMP - Sr 84 - 1288 PI E are listed on BSE. The trading of units of FMP -Sr 84 – 1288 PI E will be suspended on BSE with effect from closing hours of trading of April 08, 2022.

For the purposes of redemption proceeds, the record date shall be April 13, 2022.

For ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Date: April 7, 2022

Place: Mumbai

Authorised Signatory

No. 003/04/2022

To know more, call 1800 222 999/1800 200 6666 or visit www.iciciprumf.com

BSE Disclaimer: It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the Scheme Information Document (SID) has been cleared or approved by BSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the SID. The investors are advised to refer to the SID for the full text of the Disclaimer clause of the BSE Limited.

As part of the Go Green Initiative, investors are encouraged to register/update their e-mail id and mobile number to support paper-less communications.

To increase awareness about Mutual Funds, we regularly conduct Investor Awareness Programs across the country. To know more about it, please visit https://www.iciciprumf.com or visit AMFI's website https://www.amfiindia.com


Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.





Date: April 07, 2022

Place: Mumbai

















T-34, IInd Floor, Okhla Industrial Area, Phase-2, New Delhi-110020: Dist. No. No. Of Shares No. 0006199 Meera Agarawal 00004382 000438094-000438193

The company hereby invites claims or objections (in writing) for issuance or

duplicate share certificate(s) within the period of 15 (Fifteen) days from the publication of this notice. In case no claims/ objections are received during this period the company shall be free to issue duplicate share certificate(s) For & On behalf of Capital Trust Limited Place- New Delhi

Date- April 07, 2022 (Company Secretary) रंजाय एएड सिंह केंद्र 🔏 Punjah & Sind Bank जोन दिल्ली ।।, बी-38/39, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज 1, नारायणा, नई दिल्ली-110028

पत्र में छपे ई-नीलामी जो कि 07.05.2022 को होन है के संदर्भ में हैं जिसमें से संपत्ति क्रम सं. 8 जितेन्द्र राठौर प्रोपराइटर श्री राम इंडस्ट्रीज और राधा राठौर प्रोपराइटर बालाजी इंटरप्राइजेज (शाखाः पीएसबी मल्कागंज) की सम्पत्ति का विवरण निम्नवत है: सम्पत्ति नं अपर ग्राउण्ड फ्लोर पहली मंजिल और दूसरी मंजिल का छत केवल, 1 / 7421, गली नं. 2 शिवाजी पार्क एक्स्टेंसन, शाहदरा, दिल्ली–110032 का समस्त भाग। बाकी नियम व शर्ते पूर्वानुसार रहेंगी। दिनांकः 08.04.2022 प्राधिकृत अधिकारी

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार कार्यालयः अति. मुख्य अभियंता (एम)-11 (ई एंड एम रखरखाव मंडल) 2रा तल, जल सदन बिल्डिंग, लाजपत नगर, नई दिल्ली-110024 ईमेलः eeemwssii@gmail.com,

स्थानः नई दिल्ली

प्रैस एन.आई.टी. सं.: 50 ईई (ई एंड एम) डब्ल्यू एंड एसएस-II (2021-22) से निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि /समय ौली कंस्टीच्युएन्सी एसी-45 के अंतर्गत बी-1 बीपीएस वसंत कुंज में 240 एचपी के पम्प सेट द्वारा 150 एचपी के वर्तमान पम्प सेट के विस्थापन तथा उसके 12.00 बजे अप. . सभी संबंधित कार्यों द्वारा बी-1 बीपीएस का सुधार।

''कोरोना रोकें: मास्क पहनें. शारीरिक दरी का पालन करें. हाथों को स्वच्छ रखें'

इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाईट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखें।

पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 15 (2022-23)

> दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार कार्यालयः अतिरिक्त मुख्य अभियंता (पी)- 4 कमरा सं. 31, बी-बिल्डिंग, झण्डेवालान, नई दिल्ली-110005

> > फोनः 09650094325, ईमेल आईडी: dibwaterbody@gmila.com

उप एस.ई. (डब्ल्यूबी)-I

कार्यपालक अभियंता (ईएंडएम) एम-11 एस-II

(संजय खन्ना)

प्रैस एनआईटी सं. 01/डबल्युबी-I/2022-23 कार्य का विवरण ई-प्रापण सॉल्युशन के माध्यम ई-प्रापण सॉल्युशन के मूल्य (ईसीबी)/ माध्यम से निविदा प्राप्ति से निविदा जारी की तिथि एवं निविद राशि (ईएमडी) की अंतिम तिथि/समय निविदा आईडी नं. 26.1 दिल्ली में हौज खास लैक से नीले हरे एल्गी को हटाना। 22.4.2022 वे 2022 DJB 22065 1 3.00 बजे अप. तक।

इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाईट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखें। पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 19 (2022-23)

''कोरोना रोकें; मास्क पहनें, शारीरिक दरी का पालन करें, हाथों को स्वच्छ रखें"

दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार



निविदा आईडी: 2022 DJB 220218 1 अनुमानित । धरोहर राशि निविदा । ई-प्रापण सॉल्युशन के। ई-प्रापण सॉल्युशन के माध्यम से निविदा प्राप्ति की तिथि की अंतिम तिथि/समय . भलस्वा लेक के चारो ओर तथा अन्य उपयुक्त स्थानों पर ट्यूबवेल्स 408154623/- | 5081600/- | 06.04.2022 19.04.2022 के का बोरिंग एवं संस्थापन (सिविल तथा ई एंड एम कार्य) 6.00 बजे अप. से 03.00 बजे अप. तक

इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाईट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखें। निविदा वेबसाईट पर अपलोड की गई है। (एस.पी. सिंह उप. एस. ई (प्रॉजेक्ट)-V विज्ञा. सं. जे.एस.वी.16(2022-23) "कोरोना रोकें; मास्क पहनें; शारीरिक दूरी का पालन करें; हाथों को स्वच्छ रखें"

दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार कार्यालयः अति. मुख्य अभियंता (सी)-4

कमरा सं. 307, वरुणालय, फेज-1, झण्डेवालान, करोल बाग, नई दिल्ली-110005



एनआईटी सं. 01/उप एस ई(पी)एसआर-II/(2022-23) अनुमानित | निविदा शुल्क | ई-प्रापण साल्युशन के माध्यम | ई-प्रापण साल्युशन के कार्य का विवरण से निविदा जारी की तिथि माध्यम से निविदा पाप्ति की अंतिम तिथि/समय तथा निविदा आईडी 2022 DJB 220211 1 25.04.2022 के डब्ल्युडब्ल्युटीपी ओखला से अबुल फजल ड्रेन होते हुए शोधित एफल्युएन्ट चैनल्स को जोडने के लिये माइक्रो टनलिंग द्वारा चैनल का निर्माण 3.00 बजे अप. तक

इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाईट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखें। पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी

विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 18(2022-23) ''कोरोना रोकें; मास्क पहनें, शारीरिक दुरी का पालन करें, हाथों को स्वच्छ रखें''

दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार कार्यालयः मुख्य अभियन्ता (डब्ल्युडब्ल्यू) चन्द्रावल वाटर वर्क्स नं. II. सिविल लाइन्स, दिल्ली-54 कार्यालय टेलीफोन नं. 011-23815504, ईमेल: eecplantww.djb@gmail.com



उप एस ई (पी))

एसआर-II

संक्षिप्त प्रैस एनआईटी सं. 01/(2022-23) माध्यम से निविदा के (फ्रैश) की अंतिम तिथि/समय 07.04.2022 16.04.2022 का निर्माण एवं बिछाना। (निविदा आईडी: 2022 DJB 220310 1)

इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाईट www.delhi.govtprocurement.com पर देखें (अभि.बी.एल. कुरु

FOLLOW-UP PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF RESIDUAL EQUITY PUBLIC SHAREHOLDERS OF

''कोरोना रोकें; मास्क पहनें, शारीरिक दूरी का पालन करें, हाथों को स्वच्छ रखें'

GENESIS EXPORTS LIMITED CIN NO: L26919WB1981PLC033906

Registered office: "Chitrakoot", 10th Floor, 230A, A.J.C. Bose Road, Kolkata - 700020 Tel. No.: 91-7604088814/15/16/17; Email: genesis.exports@genesisexp.com; Website: www.genesisexp.com

In pursuance of the Delisting Offer made by Mr. Sushil Jhunjhunwala, Ms. Gyaneshwari Jhunjhunwala, Mr. Ajit Jhunjhunwala, Ms. Nidhi Jhunjhunwala, SKJ Investment Private Limited (hereinafter collectively referred to as "Acquirers") for acquiring up to 1,35,269 fully paid-up Equity Shares of face value of Rs.10.00/- ("Equity Shares") representing 25.07% of the total paid-up equity share capital

("Offer Shares") of Genesis Exports Limited("GEL" or "the Company"), 1,27,925 Equity Shares representing 23.71% of the total paid-up equity share capital of the Company were tendered, which had been subsequently accepted by the Acquirers. This Follow-up Public Announcement ("FPA") is being made in accordance with the provisions of Regulation 27 and such other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021, as amended from time to time, ("Delisting Regulations"), made to the Residual Equity Public Shareholders holding Equity Shares of the Company, to

This FPA is in continuation to and should be read in conjunction with the Initial Public Announcement dated August 20, 2021 ("IPA") Detailed Public Announcement dated November 11, 2021 published on November 12, 2021 ('DPA'), the Letter of Offer dated November

11, 2021 ("LoF"), the Post Offer Public Announcement published on December 02, 2021 ("Post Offer PA"), Exit Offer Letter dated January 06, 2022 ("Exit Offer Letter") and the Delisting Notice issued by the Calcutta Stock Exchange of India Limited ("CSE") vide its notice number bearing reference number 'CSE/LD/15399/2022'dated January 05, 2022 mentioning the effective date of delisting of the Equity Shares of the Company being January 06, 2022 ("CSE Delisting Notice").

All Capitalized terms used but not defined in this FPA shall have the same meaning assigned to them as in the DPA and the LoF. 1. OUTSTANDING EQUITY SHARES AFTER DELISTING

In accordance with Regulation 26 read with Regulation 27 of the Delisting Regulations, all the Residual Equity Public Shareholders of the Company who did not or were not able to participate in the Reverse Book Building process through the Stock Exchange mechanism of BSE Limited, may tender their Equity Shares to the Acquirers at a price of Rs. 965/- per equity share ("Exit Price") for a period of one year starting from the date of delisting of the Equity Shares of the Company i.e. from January 06, 2022 to January 05, 2023 ("Exit Period") and avail the exit opportunity at the Exit Price;

2. PAYMENT OF CONSIDERATION TO RESIDUAL SHAREHOLDERS

Subject to any regulatory approvals as may be required, the Acquirers intend to make payments on a monthly basis, within 10 working days of the end of the relevant month ("Monthly Payment Cycle"). Payments will be made only to those public shareholders who have validly tendered their Equity Shares by following the instructions laid out in the Exit Offer Letter and the application form ("Exit Application Form") enclosed with the Exit Offer Letter.

The acquirers hereby invite the Residual Equity Public Shareholders to avail the exit opportunity at the Exit Price during the Exit Period. If the Residual Equity Public Shareholders have any query with regards to the Delisting Offer, they should consult the Manager to the Exit Offer or Registrar to the Exit Offer as per the details given below:

Chartered Capital and Investment Limited 418-C, "215 Atrium", Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai 400 093 Tel No.: 022- 6692 4111/6222 Contact Person: Mr. Amitkumar Gattani Email Id: mumbai@charteredcapital.net Website: www.charteredcapital.net SEBI Registration No: INM000004018 Validity: Permanent CIN: L45201GJ1986PLC008577		REGISTRAR TO THE EXIT OFFER		
		Maheshwari Datamatics Pvt. Ltd. 23, R.N. Mukherjee Road, 5° Floor, Kolkata - 700001 Tel. No.: +91 33 2248 2248 Fax No.: +91 33 2248 4787 Email: mdpldc@yahoo.com Website: www.mdpl.in Contact Person: Mr. S K Chaubey SEBI Registration No: INR000000353 Validity: Permanent CIN: U20221WB1982PTC034886		
For and on behalf of Acc	quirers			
Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-	
Sushil Jhunjhunwala (Acquirer I)	Gyaneshwari Jhunjhunwala (Acquirer II)	Ajit Jhunjhunwala (Acquirer III)	Nidhi Jhunjhunwala (Acquirer IV)	

For and behalf of Board of SKJ Investments Private Limited (Acquirer V)

Sushil Jhunjhunwala Ajit Jhunjhunwala

यूनियन बैंक 🕼 Union Bank Anthra (a) aundit won

एफजीएमओ दिल्ली, युनिट नं. 602-ए, टॉवर-2, छठां तल, कोनेक्टस भवभृति मार्ग, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के विपरीत, अजमेरी गेट की तरफ, नई दिल्ली-110001 फोन नं.: 011-23215011, 23218541

कोनेक्टस टॉवर, नई दिल्ली में SAM शाखा और आंचलिक हेल्पडेस्क की स्थापना के लिए सिविल; सैनिटरी; प्लम्बिंग

यनियन बैंक ऑफ इंडिया उपर्यक्त कार्य के लिए पात्र प्रतिष्ठित विक्रेताओं से सीलबंद निविदा आमंत्रित करता है। कार्य के पुरा होने की अवधि 45 दिवस है। निविदा दस्तावेज हमारे कार्यालय से 08.04.2022 से 22.04.2022 तक कार्य दिवसों के दौरान प्रात: 10:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक युनियन बैंक ऑफ इंडिया, दिल्ली के पक्ष में पेय ऑर्डर के माध्यम से 1500/- रुपये निविदा शुल्क के भगतान पर प्राप्त किए जा सकते हैं। ईएमडी रू. 2.25,000/-दिल्ली में देय युनियन बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में पेय ऑर्डर के रूप में जमा होगें। निविदा बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in और सरकारी पोर्टल

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 22.04.2022 को दोपहर 3:00 बजे तक है। प्री बिड बैठक दिनांक 14.04.2022 को होगी। एफजीएमओ-दिल्ली के उपरोक्त पते पर निविदा की बिक्री, जमा करने, प्री बिड बैठक और बोली आईडी खोला जाएगा।



इंडस्ट्रियल एरिया, नारायणा, नई दिल्ली-110028

अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा, नाराचणा, नई दिल्ली के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमायली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अघोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 17.01,2022 जारी कर ऋणधारक मैं, डिस्को एण्टरप्राईजेज (हारा उसके प्रॉप्राईटर श्री विजय मित्तल) वाई-203, लोहा मंडी, नरावणा, दिल्ली-110028 को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में चर्णित राशि 13.01.2022 को रु. 03,02,39,932.56 (रु. तीन करोड़ दो लाख उन्तालिस हजार नी सौ बतीस एवं पैसे छप्पन मात्र) तथा उस पर देय ब्याज तथा चाजेंज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक/गारंटर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे. अतः एतदहारा ऋणधारक/गारंटर तथा आम जनता को सुचित किया वाता है कि आज. 05 अप्रैल, 2022 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के निवम 8 के पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहरलाक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिखा है। विशेष रूप से ऋणधारकों/गारंटरों तथा आम जनता को एतदहारा सतके किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 13.01.2022 को रु 03.02.39.932.56 (रू. तीन करोड़ दो लाख उन्तालिस हजार नी सी बत्तीस एवं पैसे छप्पन मात्र) तथा उस पर देव व्याज तथा चार्जेज के लिए बैंक ऑफ बडौदा, नारायणा, नई दिल्ली के चार्ज के अधीन होगा।

ऋगधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलबध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

814 (भतल को छोड़कर) का ईएम, सम्पत्ति की चौहदी : पर्य : प्लॉट नं. डी-813, पश्चिम : सम्पत्ति सं. डी-815. उत्तर : प्रवेश/रोड. दक्षिण : सर्विस लेन।

2. श्री विजय मित्तल के नाम में गली नं. टकशलियान कलान, बाजार सीताराम, वार्ड नं. ०५, चावडी बाजार, दिल्ली में स्थित सम्पत्ति सं. 3102 का ईएम, सम्पत्ति की चौहर्दी : पूर्व : सम्पत्ति सं. 3103, उत्तर : गली, पश्चिम : सम्पत्ति सं. ३१०१. दक्षिण : अन्य सम्पत्ति।

तिथि : 8.4.2022, स्थान : नई दिल्ली प्राधिकत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 दिनांक 19.03.2022 ओ.ए. नं.१३९२/१८ सेंट्रल बेंक ऑफ इंडियाआवेदक

ललित चोपड़ा एवं अन्यप्रतिवादी

प्रतिवादी

 शृभकामना बिल्डटेक प्रा. लि. 197-ई, पॉकेट-4, मयुर बिहार फेज-1, दिल्ली-110091

इस पर भी: ए-102, पहला तल स्टॉर हाऊस सेक्टर-4, नोएडा-201301. इस पर भी: प्लॉट नं. जीएच/05 (बी) सेक्टर-137, नोएडा-201301.

चुंकि उपरोक्त नामित आवेदक ने रु.24,93,534/- (चौबीस लाख तिरानवे हजार पाँच **सौ चौंतिस रूपये मात्र)** की वसुली के लिए आपके विरूद्ध एक मुकदमा दर्ज कराया है और अधिकरण के संज्ञान में आया है कि सामान्य तरीके से आपको जानकारी देना संभव नहीं है इसलिए इस विज्ञापन के माध्यम से सचना देते हुए आपको 16.11.2022 को प्रात: 10:30 बजे अधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। यह ध्यान रखें कि निर्धारित तिथि को अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर इस

मामले पर आपकी अनुपस्थिति में सुनवाई कर निर्णय लिया जाएगा। महामारी की स्थिति को देखते हुए सभी मामलों को विडियों कॉन्क्रेंसिंग के माध्यम से लिया जा रहा है और इसके प्रयोजन हेतु:-

(1) सभी अधिवक्ता / वादीगण को "सिस्को बेबैक्स" एप्लीकेशन/सॉफ्टवेयर डाउनलोड (2) "मीटिंग आईडी" एवं "पासवर्ड" अगली सुनवाई की तिथि के लिए रजिस्ट्रार/वसुली

अधिकारी-1 और वसुली अधिकारी-2 द्वारा क्वा मामलों में डीआरटी आधिकारिक पोर्टल "drt.gov.in" पर दैनिक बाद सूची में ही प्रदर्शित किया जाएगा। (3) किसी भी आपातकालीन स्थिति में एडवोकेटस/लिटिगेंटस संबंधित अधिकारी से

आज 19 मार्च, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं अधिकरण की मोहर के साथ जारी किया गया। अधिकरण के आदेशानसार

न्यायालय की मुद्दर

आरती इंडस्टीज लिमिटेड



फोन नं. 23748478 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

सहायक रजिस्ट्रार, डीआरटी-II, दिल्ली

राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण अहमदाबाद पीठ के समक्ष

कम्पनी याचिका (सीएए.) नं. 24 ऑफ 2022

कम्पनी आवेदन (सीएए.) नं. 84 ऑफ 2021

कम्पनी अधिनियम, 2013 के मामले में

का आरती फार्मोलैब्स लिमिटेड ("परिणामी कम्पनी") और उनके संबंधित शेयरधारकों के साथ डिमर्जर के संबंध में व्यवस्था की योजना के मामले में

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 एवं अन्य लागू प्रावधानों के मामले में

(सीआईएन: L24110GJ1984PLC007301) जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं. 801, 801/23, जीआईडीसी एस्टेट, फेज-3, प्रथम याचिकाकर्ता कम्पनी/डिमर्ज्ड कम्पनी वापी-396195, गुजरात में है, आरती फार्मोलैब्स लिमिटेड (सीआईएन: U24100GJ2019PLC110964)

जिसका पंजीकृत कार्यालय 22/सी/1 एवं 22/सी/2, प्रथम फेज, जीआईडीसी वापी, जिला वलसाड गुजरात-396195 में है

द्वितीय याचिकाकर्ता

अर्थात् आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड और आरती फार्मोलैंब्स लिमिटेड द्वारा आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड (''डिमर्ज्ड कम्पनी'') का आरती फार्मोलैंब्स लिमिटेड (''परिणामी कम्पनी'') और उनके संबंधित शेयरधारकों के साथ डिमर्जर के संबंध में व्यवस्था की योजना के अनुमोदन के लिए मार्च 17, 2022 को एक याचिका प्रस्तुत की गई थी और माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, अहमदाबाद द्वारा मार्च 31, 2022 को याचिका स्वीकार की गई थी। राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण ('एनसीएलटी') की अहमदाबाद पीठ के समक्ष कथित याचिका पर सुनवाई की तिथि मई 11, 2022 को प्रात: 10.30 बजे या ठीक उसके बाद निर्धारित की गई है।

कोई व्यक्ति जो उक्त याचिका का समर्थन या विरोध करने का उच्छक हो, वह याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता को अपने आशय की सूचना, अपने पूरेन नाम और पते सहित अपने या अपने अधिवक्ता के हस्ताक्षर सहित याचिका की सुनवाई के लिए निर्धारित दिन से कम से कम दो दिन पूर्व याचिकाकर्ता कंपनियों के अधिवक्ता के पास भेज सकता है। यदि वह याचिका का विरोध करने का इच्छुक है तो विरोध का आधार या शपथपत्र की एक प्रति ऐसी सूचना के साथ माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, अहमदाबाद पीठ, कॉर्पोरेट भवन, पहला एवं दूसरा तल, डायडस अस्पताल के नजदीक, थालतेज, अहमदाबाद, गुजरात-380059 के पास प्रस्तुत की जाए और इसकी एक प्रति याचिकार्क्ता कम्पनी के अधिवक्ता के पास सुनवाई की निर्धारित तिथि से कम से कम दो दिन पूर्व पहुंच जानी चाहिए।

याचिकाकर्ता कंपनियों के अधिवक्ता द्वारा याचिका की प्रति की मांग करने वाले व्यक्ति को इसके लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर इसकी प्रति उपलब्ध कराई जाएगी।

> हस्ता./-सुश्री धरमिस्ता एन. रावल याचिकाकर्ता कंपनी के अधिवक्ता

21/23 लक्ष्मी चैम्बर्स, दसरा तल, तिथि : एप्रिल ८, २०२२ विजीवन प्रेस रोड, उसमानपुरा, अहमदाबाद-380014 इंडियन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम)



🛆 इलाहाबाद

ई-नीलामी विक्री सचना

मण्डलीय कार्यालय लखनऊ

वितीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पूनर्गठन तथा प्रतिभृति हित के प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी) 2002 के सेक्शन 13(4) के

पठित नियम 6(2) एवं / या नियम 8(6) अन्तर्गत बैंक में बंधक रखी अवल सम्पत्तियों की ई-नीलामी की सुबना रेसाकि, **इंडियन बैंक** के बकायों के तथा उसमें वर्णितानुसार ब्याज की वसली हेतु "जहाँ है जो है, जो कु**छ भी है वहां पर"** के आधार पर उसे बेचने के अधिकार के साथ निम्नलिखित ऋण खाता में वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के धारा 13(2) के अधीन जारी की गई सुचना के अनुपालन में बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने निम्नलिखित सम्पत्ति / यों का रचनात्मक कब्जा ले लिया है और जैसा कि बकायों का पूर्न भूगतान न करने के फलस्वरूप, अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन प्रदल्त अधिकारों का प्रयोग करते हए अवोहस्ताबरी कथित सम्पत्ति ∕ यों की ई—नीलामी सेवाप्रदाता की वेबसाइट −https://www.mstcecommerce.com के माध्यम से बिकी करके बैंक के बकायों की वसुली का प्रस्ताव रखता है।

ऋणकर्वा / जमानतकर्वा प्रमारित / बंधक / का नाग एवं पता कब्ता सुपना की शिवि दुष्टिबंधक ई-जीतामी की प्रतिमृति ऋण राशि की गई परिसम्पति तिविद्य एवं समय

शारवाः गोमतीनगर, लखनऊ फोन नं. 0522-2304829 खाते / ऋणकर्ता का नामः 1. मेसर्स सनराइज भूमि के सभी भाग व हिस्से (市) 布. 89,23,000/-13.11.2019 17.05.2022 इंटरप्राइजेज, प्रोप, मोहम्मद अनवर बेग पुत्र मोहम्मद रिवत खसरा नं. 259 और साय 5 बजे 30.01.2020 (61) %. 8,92,300/-बेग, टिनिटी मेफेयर 9/2 अशोक वाटिका, पलैट नं 402, 260 मिन, (नया खसरा न तक (ग) खाता सं. चौधी मंजिल, तेज बहादुर, सप्रू मार्ग लखनऊ-226001 462), क्षेत्रफल-0.067 1,75,05,420/-18.05.2022 6127853725 मोहम्मद अनवर बेग पुत्र मोहम्मद बेग, हे क्टे. ग्राम-जमायतपुर पूर्वान्ह 10 दिनांक IFSC Code-(प्रोपराईटर/बंधककर्ता) निवासी पलेट नंबर 105, परगना-कारियाबाद, बर्ज से साय IDIB000H561 03.03.2022 रजिया कोर्ट यार्ड, निकट सिटी रेलवे स्टेशन, जिला – सीतापुर 5 बजे तक तक + भविष्य (U) W. 10,000/-जिला-लखनऊ-226001 मालिक- अनवर बेग का ब्याज, व्यय जमानतकर्ता—: 1. श्रीमती नजमा अनवर निवासी पर्लेट एवं अन्य खर्चे नंबर 105, रजिया कोर्ट यार्ड, निकट सिटी रेलवे स्टेशन जिला-लखनऊ-226001 2. श्री अमित क्मार सिंह निवासी मकान नंबर 3, चौघरी नगर, नाका पैसर, पीजाबाद रोड, नवादगंज,

इच्छक बोलीदाता शीर्षक दस्तावेज, संपत्ति और उसके निरीक्षण के बारे में सत्यापन के लिए, इंडियन बैंक, उपरोक्त शाखा से कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस से संपर्क कर सकते है।

अधिक जानकारी और नियम एवं शर्ते डाउनलोड करने के लिए, कृपया देखें—i. https://ibapi.in, ii. https://www.mstcecommerce.com सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत उधारकर्ताओं / जमानतकर्ताओं को बिक्री सूचना के बारे में अधिसूचित किया जाता है।

देनांक: 06.04.2022 स्थानः लखनक

प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक

TEXEL INDUSTRIES LIMITED Corporate Identity Number: L29100GJ1989PLC012576

Registered Office: Block No. 2106, Santej-Khatraj Road, Nr. Gayatri Farm House, Village - Santej, Taluka - Kalol (N.G), District - Gandhinagar - 382721, Gujarat, India. | Telephone: +91 8980026220 / 26110 | Email: info@geotexelin.com Contact Person: Ms. Shweta Sultania, Company Secretary and Compliance Officer Email: finance@geotexelin.com | Website: www.geotexelin.com

FORFEITURE NOTICE NOTICE IN RELATION TO FORFEITURE AND CANCELLATION OF 5.630 PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES OF THE COMPANY ON WHICH THE SHAREHOLDERS HAVE FAILED TO PAY THE FIRST AND FINAL CALL MONEY

Dear Shareholders, Subject: Notice in relation to forfeiture and cancellation of 5,630 partly paid-up equity shares issued by Texel industries Limited ("Company") on rights basis, pursuant to the Letter of Offer dated August 12, 2021 ("Letter of Offer" or "LOF") on which the shareholders have failed to pay the First and Final Call money.

n terms of the LOF, the Company had issued 31,22,398 partly paid-up Equity Shares of face value of ₹10/- each for cash a a price of ₹40/- each (including a share premium of ₹30/- per Rights Equity Share) on a Rights Basis to the Eligible Equity Shareholders of the Company as on the record date i.e. August 17, 2021.

The balance amount of ₹20/- per partly paid-up equity share (comprising ₹5/- towards face value and ₹15/- towards share premium) was payable on first and final call (the "First and Final Call").

The Board of Directors of the Company has at its meeting held on October 28, 2021 approved the making of First and Final Call of ₹20/- per partly paid-up Equity Share (comprising ₹5/- towards face value and ₹15/- towards share premium). The Board of Directors had fixed Friday, November 12, 2021 as the record date ("Record Date") for the purpose of

determining the names of holders of partly paid-up equity shares to whom the notice for the First and Final Call (the "First and Final Call Notice") was dispatched on November 24, 2021. The last date for making payment of First and Final Call money of ₹20/- per partly paid-up Equity Share (comprising ₹5/- towards face value and ₹15/- towards share premium) was on December 15, 2021. During the call payment period which was open from December 1, 2021 to December 15, 2021, the Company received first and final call money on 19,58,286 partly paid-up Equity Shares aggregating to ₹3,91,65,720/-In the interest of the Shareholders, the Company on January 11, 2022, issued Final Demand cum Forfeiture Notice to the remaining partly paid-up Equity Shareholders who failed to pay the First and Final Call money by December 15, 2021 and granted an additional period of 15 days from January 13, 2022 till January 27, 2022 for the payment of First and Final Call money. Pursuant to the Final Demand cum Forfeiture Notice, the Company received First and Final Call money on 11,58,482 partly paid-up Equity Shares aggregating to ₹2,31,69,640/-

However, the Company has not received First and Final Call money on 5,630 partly paid-up Equity Shares (due to be received on January 27, 2022). Please note that in accordance with the provisions of Articles of Association of the Company, LOF and pursuant to the approval of the Board of Directors on March 11, 2022, the partly paid-up equity shares of the Company on which the First and Final Call money was not paid till January 27, 2022, stands forfeited and cancelled. This has been informed to the BSE Limited on March 11, 2022. Further, the Company has completed dispatch on April 7, 2022 intimating the shareholders regarding forfeiture and cancellation of partly paid-up equity shares due to non-payment of First and Final

For Texel Industries Limited

Date: April 07, 2022 Place: Ahmedabad

Shweta Sultania Company Secretary & Compliance Officer

This is a public announcement for information purpose only and is not a Prospectus Announcement.

Not for publication and distribution, directly or indirectly outside India. PUBLIC ANNOUNCEMENT



SABOO SODIUM CHLORO LIMITED

Our Company was originally incorporated under the provisions of Companies Act, 1956 in Jaipur as "Saboo Sodium Chloro Limited" on 22nd November, 1993 vide Certificate of Incorporation bearing Registration Number 17-07830 of 1993-94 and certificate of commencement of business dated 22nd November, 1993 issued by the Registrar of Companies, Jaipur, Rajasthan. Registered & Corporate office: L5-B II Krishna Marg, C- Scheme Jaipur, Rajasthan - 302001

Contact Person: Mrs. Megha Sharma, Company Secretary & Compliance Officer; Tel No: +91 141 2372946 / 2379483 E-Mail ID: salt@suryasalt.com; Website: www.suryasalt.com; CIN: L24117RJ1993PLC007830

OUR PROMOTERS: MR. GIRDHAR GOPAL SABOO AND MRS. ARCHANA SABOO FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY

RIGHTS ISSUE OF [●] PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- (RUPEES TEN ONLY) ('EQUITY SHARES') EACH AT A PRICE OF ₹ [•]/- (RUPEES [•] ONLY) PER RIGHT SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ [•]/- (RUPEES [●] ONLY) PER RIGHT SHARE) ("ISSUE PRICE") ("RIGHT SHARES") FOR AN AMOUNT UP TO ₹ 18.00 CRORES" (RUPEES EIGHTEEN CRORES ONLY) ON A RIGHTS ISSUE BASIS TO THE ELIGIBLE SHAREHOLDERS OF SABOO SODIUM CHLORO LIMITED ('COMPANY' OR 'ISSUER') IN THE RATIO OF [●] ([●]) RIGHT SHARES FOR EVERY [●] ([●]) EQUITY SHARES HELD BY SUCH ELIGIBLE SHAREHOLDERS AS ON THE RECORD DATE [◆], ("ISSUE"). THE ISSUE PRICE IS [◆] ([◆]) TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE, FOR FURTHER DETAILS, KINDLY REFER TO THE SECTION TITLED 'TERMS OF THE

ISSUE' BEGINNING ON PAGE 107 OF THE DRAFT LETTER OF OFFER *Assuming full subscription and receipt of all Call Monies with respect to Right Shares

This Public Announcement is made in compliance with the provisions of Regulation 72 (2) of the Securities and Exchange Board of India(Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (the "SEBI ICDR Regulations"), to inform the public that the Company is proposing subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, an issue of Equity Shares to its equity shareholders on rights basis and has on April 06, 2022 filed a Draft Letter of Offer ("DLOF") with the Designated Stock Exchange BSE Ltd. Since the size of the Rights issue is less than Rupees Fifty (₹ 50.00) crores, the DLOF has not been filed with Securities and Exchange Board of India ("SEBI") nor SEBI shall issue any observation on the DLOF. The DLOF is available in the website of Stock Exchanges, i.e BSE Limited ("BSE") at www.bseindia.com and website of the Company at www.suryasalt.com.

Investment in equity and equity related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this offer unless they can afford to take the risk with such investment. Investors are advised to read the Risk Factors carefully before taking an investment decision in this offering. For taking an investment decision, investors shall rely on their own examination of the issuer and the offer including the risks involved. The Right Equity Shares being offered in this issue have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of this document.

Investors should read the offer document carefully, including the Risk factors on page 18 of the offer document before making any investment decision

BEETAL FINANCIAL & COMPUTER SERVICES (P) LIMITED

'BEETAL HOUSE', 3rd Floor, 99, Madangir, Behind Local Shopping Centre, New Delhi-110062 Tel No: 011-29961281-83, 011-26051061, 26051064; Fax No: 011-29961284; Email: beetal@beetalfinancial.com Contact Person: Mr. Punit Mittal, General Manager; Website: www.beetalfinancial.com SEBI Registration Number: INR000000262; CIN No: U67120DL1993PTC052486

All capitalised terms used and not specifically defined herein shall have the same meaning ascribed to them in the DLOF.

For SABOO SODIUM CHLORO LIMITED On behalf of the Board of Directors

Date : April 7, 2022 Place: Rajasthan

Mrs. Megha Sharma Company Secretary & Compliance Officer This Public announcement has been prepared for publication in India and may not be released in any other jurisdiction. Please note

that the distribution of the DLOF and the Issue of equity shares on a rights basis to persons in certain jurisdictions outside India may be restricted by legal requirements prevailing in those jurisdictions. Accordingly, any person who acquires Rights Entitlements or Rights Equity Shares will be deemed to have declared, warranted, and agreed that at the time of subscribing to the Rights Equity Shares or the Rights Entitlements, such person is not and will not be in the United States and/or in other restricted jurisdictions. The Rights Equity Shares of the Company have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended ("Securities Act"), or in any other jurisdiction which have any restrictions in connection with offering, issuing and allotting Rights Equity Shares within its jurisdiction and/or to its citizens. The offering to which the DLOF relates is not and under no circumstances is to be construed as, an offering of any Rights Equity Shares or Rights Entitlements for sale in the United States or any other jurisdiction other than India or as a solicitation therein of an offer to buy any of the said Rights Equity Shares or Rights

Date: Thursday, April 07, 2022 Place: Kolkata

www.readwhere.com

विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 20(2022-23)



वैद्यत एवं फर्निशिग कार्य हेत निविदा आमंत्रण सचना

www.eprocure.in पर भी उपलब्ध हैं।

शाखाः 32, कम्युनिटी सेन्टर फेज -1

कब्जा सचना (अचल सम्पत्ति के लिये) [देखें नियम 8(1)] जैसा कि. वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 वे

श्री विजय कुमार मित्तल के नाम में सरस्वती विहार, पीतमपुरा, दिल्ली में ब्लॉक-डी में स्थित आवासीय सम्पत्ति-

ऋण वसूली अधिकरण-II, दिल्ली के समक्ष

आरती इंडस्टीज लिमिटेड ("डिमर्ज्ड कम्पनी")

कम्पनी/परिणामी कंपनी याचिका पर सुनवाई की सूचना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के अंतर्गत याचिकाकर्ता कंपनियों

एको के छिछ की कमी है

है। जना समारी er it, met alt त से उससे घट see force over व्यवसाय केले

। भारत के त से परिणीत

रही राजसक मोनानों के सार समोदरी की है। र्मर बने। इसके हते अस्त के क्षत्रे से क्षत्र ये दिए भूमि वी प्रियमि ली क्रीस से ही वेह इ व्यक्ति अस्त रेक्टर में हम है. अस्य यही सेने लने तो रकेने। इतरो हार की रेकेन्द्र

दिवकते अ

करे देश में र शर्म और प्राप्त द ने बंध रहे हैं क्षति है। समाने व्यक्त विश्वीद्या र वा रहे हैं क्लेर्ड न वर्ले व लाकि सभी पर के लिए प्रापेक्का हैं?

हो बदली ही

का करने की

रक्षा साह भी

को त्याम देते

वरिया इसमे

किल्लाको का

हरने चितिए।

आईआईएफएल सिक्योरिटीज ने गोल्डनपी के साथ किया समझौता

रिटेल इनवेस्टर्स को बॉण्ड और डिबेंचर इनवेस्टमेंट तक पहुंच प्रदान करने के लिए की साझेदारी

विदेश सामाचार पार्जी में से एक anfantroom feedficts Wate é cost for sont fiche Sebest on नेकायते क्योंट में क्या और विशेष में विशेष करने के पिए अस्तर प्रतुप प्रकार के बर्च में विवेदान परवर्तित और जनसकत ment in fluors it allow finder orbitals

इस सड़िक्सी पर सिवार्सी करते हा actuatores frontlyta in the Billion affice admin uffer it see. पारंपरिक रूप से इस विक्रिका फेटर करे इंड्रस्टोर में विकेश करून वर्गद करने में और या हम अवनीयों के लाउंच में ही शरीवन है। बहुत बड़ी साम्य में लोग जान में समीर जान में निर्देश करण पर्यात करते हैं, हलांकि बढ़ती मुझररीति के राज्य का स्वतंत्रण वचने के रेप यह तरीवा प्रवास नहीं है। इसकी कुमा all fachers along de ancor di 9-10 coffeet प्रीत को या उससे अधिक का रिटर्न सरितन कर रकते हैं, जे रुक्ट रूप में संबंधि जस का एक बेहरर विकास है।" "र्शन्त्रमंदे के मध्यम ते, अर्थअर्थपृत्रापुत्र विशयोधिक एक अन्त it alread soil blace could be

के तथा एक अनुस्त कोरावीर प्रधान कर रक्त के '' जोकारों के जीईने कीरतेंग तीव ने कहा, 'पहले तेवाडी बीव्ह अवेट को लेकर अवस्थात उत्तरी की की भी ही होन इसके बरे में जातों हो, लेकिन तेवाडरी बीच्ड ander at their each of others in the मैकुन्न अर्थदन की आकरताना होती है, जे प्राप्त प्राप्ता के हैं।

अवंत्रक्षाप्त्रम् विवयंत्रिके के सम notial factors on the laterals russs तीर पर जाता में युवन बीव्ह निर्देश के लिए एक महत्वपूर्व अक्टर प्रकार करते हैं edition and and contra Desirition had a fidence offering of प्रीक्रव में एक्ट रही है और इस्से 200 लोगों की अपने सम्बद्ध विदेशन और टेंगलेकी दोल प्रात विकासित काई ऐसे प्रोडकर पेन विका है, जो सरकों में सांप्रधान है। विदेशकों के the other motor ret is the ting it priest astroy is from लावेकीय और राजीविक निर्मेश में किए

किरते के रूप में भीका विद्या गए जाई प्रेरक्ट्स में से एक है। बाहता उसे करे se plus to finders stope in fulfic मानों हैं। तथ ही छाउने आने वाने दिनों ते कुछ रेटे इन्बेब्रिय प्रोडक्ट में लेना करने ज रसे हैं, जो शास्त्री में सर्वज्ञान होंगे

अंगरी भी और से उत्पर का बात पता follows uscalt at forest, we write alto 25x m of the m agin with प्रोक्तने नुत्रः टेक्स वर्तामन वस्त्र क्रीमन At any one can foreign in one can't be बेहरर बहारा व्यवस अनुन्य हरिल केया ज तरात है। तक ही, मजबूर प्राथमेंटन के अपन्य पर अपनेटेड ईटीएठ की रेप प्रकार करन, अनिकेत और केप्योरक जैसे कई असीवर्ते के जाता में एकपूरत सिवेश कार्ज को दुविय में समित हैं

बोम्बे सुपर हाईब्रिड सीड्स लि. ने बीजों की आसान आपर्ति के लिये जयपुर में खरीदा कॉमर्शियल वेयरहाउस

Bómbay Super seeds

भिक्रमेश देनेशीक/जणहर/का.सं: the off upon after States हामात के रामश्रेट अवरित क्यांने बोम्बे तुपर स्वविद्य सीवत भिनियोड से संदर्भ बाजरों को सुचित fixes it this creat it about all में पूर्वार तेनी से विद्वार मकार show the Dept sector and all म्यू लेक मार्केट मंडत विका artidens incress ratio fea it, ut the cot it suppose petrit रियो यह स्थित की है। इस सर्वेद हे पायचे वर्तित होती रक्तो है र्क उत्तर करा उर्दर गैरोंक प्रधानक दुतरे ताल ने सुद्दन के एसरिका में को की को त्रकार को भी बचन कर प्रकेश व्हीं कंपनी तमा पर अस रहेक है जहरू की उस्त्री करने

52 Week High Security SECURITY Adirya Stirla Fachian and Setali Limited 322 2,214.95 Admi Enterprises Limited en Energy Lis 256.95 3 771 84 AND Subsective Limited 61.8 354 2,600.00 AVBO INDIA LIMITED 639-3 Admi Wilms Lindted Bank of Barnela 678 Marrie Dynamics Limite 1,050,00 116.75 BES International Services Li 238.6 The Byte Hospitality Ltd. 167 6 36.72 140.45 275.1 84 1.624.80 Hindurtus Acresanties Limited Bealthcary Global Enterprises Limited 296.5 The Indian Hotels Company Limited Intellect Design Arems Limited 986.65 Jindal Stool & Person Limited 147.6 81.4 KCP Sugar and bad 34.3 Kernen Warnepstrem (India) Limited 182.85 KALhagar Mills Lie 42.7 52 Week La AND OWNER LINGSON 74.65 Address Blets New Life Gold ETF 47.6

122.1 Debork bedietries Lincial GMB Preser and Value Jefra Li

एवो इंडिया का एसएमई एक्सचेंज से एनएसई व बीएसई के मैनबोर्ड पर हुआ माईग्रेशन

प्रमुख परस्टिक क्लीवर प्रेमांत करावे एके इंटिया निविद्धेंड से लेकर बकारों को लुचित किया है कि कामी प्रस्ताई एक्सपेज से प्रजासर्थ व बीएसर्थ के नैजबेर्ड पर मार्किट हो गई है। यह कंपनी के रिश्वे sets than day offer \$1 calman; ofer any के लिए कार्ज को अने बदने में उदाद करेकी। जीरतान्य में कि मांचरी आ जुनई 20% को एमरतई इसमें खेलतीओ पा विराट हुई की तब कंपनी का अईपीओ हा रूपने पूर्ण क्षेत्रह के अंध में अब क



FURNITURE किए प्राप्त मेंके पर संपर्ध के वेदर्शन तुर्वेत कुम्बर अवधान करत कि ' जनतार्च its Bade in our dovel in Bade to पुष्ट राज महत्त्वाच होना क्षेत्रों के रिचे non and fine it: and done in charle of बीच को तकार विशेषी। महोतेका से वापनी अधिक विशेषको को अवस्थित कर पार्वारी और १ मिंट के स्थापने १ लेक्ट में जन्मती,2022 में कंपनी में केन्स्परकों को जिल्हें करने के कहारा कंपनी के लेका में विने पूर्व उटाने में असाने होती। पूर्व इतिया सी कारोबरी जीतीवीय एउटी

इतिया विविद्योग को सक्ताम को 2002 में व्यक्तिकार दला प्रदेश किया हुई की amoragon abido osiber às feator ते. के व्यवस्थ में सम्बंधन है। संपन्ने के प्रत Recor chose for R she south # वेशिया गरेएएई और वेशिया के अनुसर राई ओटोरिक काफाय में इपेरिक नर्कने एवं लेख है उत्पन्ने का निर्माण होता है। कंपनी उत्पानशा की प्रमुख 290 के अनुवार में बोबार क्षेत्रर प्रदान - विशेषवित्री से बदेगी इसके तक हो इसने - प्रणादिक मोन्ड बिजार के और पूरे - विशेष है।

विश्वीत क्यांग्रिको में कुमर है।

र्था स्ट्रेस्स्ट्रीट प्रदाश संदार सेंदार केंद्रा alterese objects in addition करते हैं। काओं की उपलिंक अमेजन forecast, drafter, transact, alls पा है। इसके तरह ही संपर्ध 200 डीवर्ज एवं २० इंडर ने जन्म रफर्दिन व bired in other viscous recent of विवार करती है। कंपनी से विता कई 2021 में 53,57 फारेड़ रूपचे विक्री करते 4.00 करोड़ रुपमें का इंक्टिट और ६३१ करोड़

में दर्ज तेजी व जिलबर - Group Wise

LTP	% Ch
roup -A	_
49.5	20
88.3	13.5
29.2 358	11.66
3.58	11.41
79.1	10.55
307.2	9.75
11.9	8.97
303.55	N.92
620.5	8.75
17.97	7.93
mup -B	
104.4	20
54	20
89.85	19.96
117.35	17.35
163	16.76
59.65	16.28
125.95	15.69

Group Wise oup -A

-9.28
-6.99
-6.91
-0.05
-5.27
-4.99
-4.9%
-4.94
4.7
-9.95
-8.77
4.26
-8.12
-7.56
-7.13
-7.03
-6.67
-0.50

निफ्टी फ्यूचर १७८०८ अंक महत्वपूर्ण स्तर...!!!

महरूपदार्ग रहा ।।। विनांत 08.04.2022 केवर कारत में ट्रेडिंग के अंबंध में factor 07.04.2022 Gr fault प्रयुक्त कार्वेदिन प्राप्त क्ष 17742 title w .unit ester à fe; sufte feat प्रकृत 17787 अंक के



मध्ये अस्मापूर्व साथ गाउवा अस राखात अंक को स् तालत है और तको स्थानपूर्ण १७०७६ अस्त के सम्बद्धाः स्टीपनेत के तक वालेका यह सम्बद्धाः है। निक्की वक्तुवर ने 1700) ओड जनमञ्जूने स्टीजॉन के लब जावजरी की दिस्तीर ...।

THE OT 04 2022 OF THE THEFT प्रमुख्य क्रमेरिका प्रदेश *ा उ*७४०० **建筑**

अगले व्यक्तेयर के लिए संबंधित बैच विवादी वायूचर अगर १६ जोन के सबसे प्राप्तकार्त्व अन्य अगर १६ व्हा अगर १४ अंक को गु सकता है और तबरे महत्त्वपूर्ण असंस्थ अंक के मानवूर स्टेंपर्वत के तक तार्यक्र तर सहत है: बेल विवर्त जाहर में 38303 जंग मरापार्ट के संघारेंड नेपालन

अब गाउर सामते हैं प्रयूपने स्टीव राजीयत सुधीत पर...।

forme gradux (2586) -रिकाइनरी पंड मार्केटिन ग्रुप को इस आएरी संस्था के रेटर की विस्ता विकासास २०६० राजां के असावत के 2537 शवर्ष के सबस स्टीव लेंत के तथा समीच जा तथाने वाल वह वर्गक कम समय में 2606



निखिल भटट रिसर्व एनालिस्ट, सेबी

राप्ये से 2617 रुपये भी निम्नीत तको पर दुरेख देश..!!! इम्बन्ते (१९८७) . त्यानीको वार्ट के

अस्ता १९४७ रूपते के अस्तान

के अरोग में सहीद ज अवने दान भर्तेक २००२ जाने ने २०१६ रापने गाउँ के लक्ष्य अंद को अंत्रवाल है . ।।। ropelities (MONEX (1825 प्रस्थ क्षीप लीव १६६८ रुपये और पुरस्य स्टीप (वेंट 1/9/ रूपमें के साथ, विशेष अधूना देखनेताती सेक्टर वर वर तेवर १५४७ राज्ये से १९६५ राज्ये तक का तेती का रूप दिकारण, !!!

क्षातिक इंग्रह्मेंब (1891) - मीरीर रह जैसेंट प्रोडार लेडरर के बेचर में १७०७ रूपों है १९९७ रुपये तक थी. बॉर्ट दर्ज ट्रेडिंग बनल है..।। १६७० राजां के अनुमारित स्टीकर्तर पर एक M10-55E 11 विकासी इंडरहीज (576) - 01

and an item deep area प्राचनेतम ग्रहीमा वह गरीक करीब 560 रुपर्व स्टीप लीत के साव estat in the summer for एन्ड्रमेरिकाम सेकार के इस स्टीक में लगभग ५७५ रुपये से ५७० रापदे तात रुपय की संगापन है।। pudosá Milás (2400) -राजनीकी पार्ट के अनुसर संप्रीपत पक्षीत क्षंप्रते संबद्ध के इस हंगर

का लाहर करीब 2465 संदर्ध में 2447 at disks of escent of their विकास होने की संस्कृत है वापक्रित जोशों के निव 2508 रूपों का स्टीवर्गन प्राप्त में रहते. ११

प्लीमी विभिन्नेत (2008) -- इस तेवर को 200 राज्ये के महीत स्टेंग पर म्बाकास २५७० रुपाई से एक उदेवाकी रेचीं। वर्त करते हुए बेच ज रकत है ।। इसकी कीवल 2023 रुपये है to tased it tions true norce संस्थात है...। इत्रक्ष राज्ये के सह पर एक होती का सहीत. हा

लसीन पंड दुवी (1832) -प्रतिकारित, डिजाप्रीत एउ कामुक्ता सेकार का वह जीव seso and in afforts in our विक्रों के लिए हैं। जीतीकवालय करने के साथ पराव रूपये में 1808 रूपये के मूल कर के अकरत लाव से state à 1

ਕੀਪ੍ਰਟੇਗ (ਸੋਕਟੀਗ (1872) _ਦ ਜਦਾਂ ਦੇ ajrafikos i Elektriani, i osofikon skihor ikarri ibi sin ikar ah asha न्त्रार आयो क्रोपडीय के कर बेचबर १६*४७ रू*पते हे १६३० रूपते का राज्योर प्रथम करते की स्थावता है। Afficial dis Theo 1730 annull der anger अनेवानीत का दक्षण करेंगा रात मीरमें (450) : इस नेवर को

व्यक्ति 474 / 480 तम्बरे का स्टॉम्लॅर तथ केवर की टरनेट प्रकार ४४० रुपयो है लेकर ४५४ रुपये तक रुपये पी समाजन है। ४०६ रुपये पर क्रीक देश. (१

नेक्क तेथे पंज्यात अनुगंधन facion als princite sipre is व्यक्तिक हैं। विकेष नोट- किरकनार । the call would

नेट: केवरों में निवेश करने से पूर्व विशेषकों को विशेष रामककार की क्षण लेगे स्टीप

PUBLIC ANNOUNCEMENT



SABOO SODIUM CHLORO LIMITED

BEETAL

